

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक अक्टूबर 30, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाड़ियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 208 वाहनों का चालान किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 21 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अभियान के दौरान धारा 34 पुलिस एक्ट मे 1365 के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन, खरीद फरोख्त, तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न थानों पर कुल 05 अभियोग पंजीकृत कर 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए गए उनके पास से कुल मिलाकर 15 लीटर कच्ची शराब, 00 शीशी अवैध देशी शराब तथा 53 शीशी नेपाली शराब बरामद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त राजकुमार साहनी पुत्र गनेश नि0 चतिया थाना ठूठीबारी के कब्जे से 30 शीशी नेपाली शराब बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 186/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गयी।

थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दिपलाल पुत्र दुख्खी नि0 पिपरा थाना ठूठीबारी के कब्जे से 11 शीशी नेपाली शराब बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 185/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गयी।

थाना चौक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त रामचन्द्र पत्र स्व0 तिलक नि0 नक्शा बक्शा थाना चौक के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 189/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गयी।

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त इन्द्रकुमार पुत्र स्व रामसुमेर नि0 त्रिलोकपुर थाना सोनौली पास से 12 शीशी देशी शराब बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 170/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गयी।

थाना सोहगीबरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- कृष्णा निषाद पुत्र पलटन नि० धोतहा थाना सोहगीबरना के पास से 05 ली० कच्ची शराब बरामद कर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 22/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में कार्यवाही की गयी ।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 16 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 29/30.10.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 27 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।